

प्रेस नोट थाना कैण्ट गोरखपुर दिनांक 27.06.2022

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये व महिला सम्बन्धी अपराध के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में शशि भूषण राय प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 369/22 धारा 376 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दिवाकर शर्मा पुत्र जवाहर लाल शर्मा निवासी सोनरा थाना कोतवाली जिला महाराजगंज को आज दिनांक 26.06.2022 समय 20.20 बजे रेलवे रोडवेज बस स्टेशन से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध/पूछताछ विवरण-

वादिनी/पीडिता अभियुक्त दिवाकर शर्मा के साथ महाराजगंज में एक मार्ट में एक साल पहले काम करती थी, उसी माल में दिवाकर शर्मा पुत्र जवाहर लाल शर्मा निवासी सोनरा थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज भी काम करता था। वही पर दोनों के बीच दोस्ती हुई और दिवाकर शर्मा पीडिता से शादी करने का प्रस्ताव रखा। बाद में दिवाकर पीडिता के साथ शादी का झांसा देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया कुछ समय बाद पीडिता वहां से काम छोड़ कर गोरखपुर में किराए का मकान लेकर रहने लगी और हॉस्पिटल में नर्स का काम करने लगी। दिवाकर शर्मा पीडिता के किराए के मकान गोरखपुर में आता जाता था दोनो पति पत्नी के जैसे रहते थे। बाद में पता चला कि 10/05/22 को दिवाकर शर्मा किसी दूसरी लड़की से शादी कर लिया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर वादिनी/पीडिता के प्रार्थना पत्र पर मु0अ0सं0 369/22 धारा 376 भादवि पंजीकृत किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त दिवाकर शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दिवाकर शर्मा पुत्र जवाहर लाल शर्मा निवासी सोनरा थाना कोतवाली जिला महाराजगंज

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण -

मु0अ0सं0 369/22 धारा 376 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान /समय -

रेलवे रोडवेज बस स्टेशन / दिनांक- 26.06.2022 समय- 20.20 बजे

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शशि भूषण राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. 30नि0 श्री शम्भू प्रसाद साहनी चौकी प्रभारी पैडलेगंज थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. 30नि0 श्री शशिकिरण सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. कां0 सुनील यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर